

No. of Printed Pages : 8

BECE-144

B. A. (HONOURS) ECONOMICS

(BAECH)

Term-End Examination

June, 2026

BECE-144 : FINANCIAL ECONOMICS

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

Note : *Answer questions from all the Sections as directed.*

Section—A

Note : *Answer any two questions from this Section.*

$2 \times 20 = 40$

1. Explain the structure of 'Indian Financial Market.'

2. Explain the 'Investor's Indifference Curve'. Explain the impact of different levels of risk aversion on indifference curve for investors.
3. What is corporate policy ? Explain the determinants of corporate policy.
4. What are the corporate securities ? Explain their features.

Section—B

***Note :** Answer any four questions from this Section.*

4×12=48

5. What are the new methods of corporate financing ? (New age financing)
6. Discuss the 'Prospect Theory of Value Function.'
7. Explain the different 'derivative markets.'

8. Discuss the Capital Asset Pricing Model (CAPM).
9. A project is likely to generate cash flows of ₹ 7,000, ₹ 6,000 and ₹ 5,000 at the end of each year. If the project cost is ₹ 14,000 will the project be selected if required rate is 12% ? Given discount rate is given to be 18% here.
10. Given,

Market value of a bond = ₹ 900

Face value = ₹ 1,100

Coupon rate = 10%

Time of maturity = 6 years

Find out the YTM (Yield to Maturity).

Section—C

Note : Answer all questions.

2×6=12

11. Explain the following :

- (a) Tax free bonds
- (b) Holding Period Return (HPR)

12. Distinguish between the following concepts :

- (a) Systematic and non-systematic risk
- (b) Fixed and flexible income securities.

BECE-144

कला स्नातक (ऑनर्स) अर्थशास्त्र

(बी. ए. ई. सी. एच.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2026

बी.ई.सी.ई.-144 : वित्तीय अर्थशास्त्र

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : सभी भागों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

भाग—क

नोट : इस भाग में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

$2 \times 20 = 40$

1. भारत के वित्त बाजार की संरचना की व्याख्या कीजिए।

2. 'निवेशक के समभाव वक्र' की व्याख्या कीजिए। निवेश के समभाव वक्रों पर जोखिम विरति के विभिन्न स्तरों के प्रभावों की व्याख्या कीजिए।
3. 'निगम नीति' क्या होती है ? निगम नीति के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए।
4. निगम प्रतिभूतियाँ क्या हैं ? उनकी विशेषताएँ समझाइए।

भाग—ख

नोट : इस भाग से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

4×12=48

5. निगम वित्तीयन की नवीन विधियाँ (नवयुगीन वित्तीयन) क्या हैं ?
6. मूल्य फलन के सम्भावना सिद्धान्त पर चर्चा कीजिए।
7. विभिन्न व्युत्पन्न बाजारों की व्याख्या कीजिए।
8. पूँजीगत परिसम्पदा कीमत निर्धारण प्रतिमान (CAPM) पर चर्चा कीजिए।

9. एक प्रकल्प से अगले तीन वर्षों के अन्त पर क्रमशः
 ₹ 7,000, ₹ 6,000 और ₹ 5,000 रुपये की आगम की
 पूर्वापेक्षा है। यदि प्रकल्प की लागत ₹ 14,000 है और
 वांछित दर 12% हो तो क्या इस प्रकल्प का चयन होगा ?
 यहाँ काटा दर 18% बताई गई है।

10. एक बॉण्ड का बाजार मूल्य = ₹ 900

$$\text{मुद्रित मूल्य} = ₹ 1,100$$

$$\text{कूपन दर} = 10\%$$

$$\text{परिपक्वता अवधि} = 6 \text{ वर्ष है।}$$

इसकी परिपक्वता प्रतिप्राप्ति का आंकलन कीजिए।

भाग—ग

नोट : इस भाग के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2×6=12

11. निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :

(क) कर-मुक्त बॉण्ड

(ख) धारण अवधि प्रतिप्राप्ति

12. निम्नलिखित संकल्पना युग्मों में भेद स्पष्ट कीजिए :

(क) व्यवस्थागत एवं गैर-व्यवस्थागत जोखिम

(ख) स्थिर एवं लचीली आय वाली प्रतिभूतियाँ

x x x x x